

64 SBD/2019-20

BARUA PER TO KHARAR
TOLI RAABULI MUSHARI
Shedule XLV Form No. 134.

BE NIOUR

MMHSY-SC
DIVISION

BE NIOUR

SUB-DIVISION

Measurement Book

N.B.No-1319

সিদ্ধান্ত গুণিত

M. B. No - 1319

INDEX	PAGE
प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में कुल - 100 टेकन (पन्ने) हैं जिस को सहायक अभियंता <u>अशोक कुमार</u> कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल <u>बेनीपुर</u> नाम से निर्गत किया जाता है	

कायपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बेनीपुर (दरभंगा)
19.9.2020

INDEX

PAGE

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st on A/C bolt				
Name of work - Constn of road from					
	Bargad per to Khapper				
	to Li Ramouli smushon				
	under smushon (sc)				
Agr. No - 64 SBD/200-21					
Agency name - Gaurang K. Thakur					
	111- Mayhous Block Belpur				
	Dist. Darbhanga Pincode-847201				

Agr. Area - Constn cost - 8759820-0					
Maintenance - 1516441-0					
Total - 10276261-0					
Date of start - 19/09/2020					
Date of comp - 18/09/2021					
Rate - 10% Below from B.O.B. Rate					
① Site clearance & grubbing (all round)					
1510 x 3.5 (area) = 5285 x 0.529114					
② Constn of embankment with approval					
Material of do do do					
	Charge	q/s Area	Mean q/s Area	Dist.	Volume
	0	0.84	-	-	-

Continuation

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Abstract of 1st				
① Site clearance & grubbing ground 1940-					
⑧ 7 side T & B P. 1940-①					
0.529 Hect eB. 51133.761 Hect B. 270500					
② Length of embankment with 100m bed					
⑧ 7 side T & B P. 1 to 384-② 1941					
506.42 M ² eB. 125.22 / M ² B. 887350					
③ Length of embankment with 100m bed					
⑧ 7 side T & B P. 1 to 384-③ 1941					
1181.66 M ² eB. 137.85 / M ² B. 1652550					
④ E/W embankment with 100m bed					
⑧ 7 side T & B P. 384-④ 3					
106.53 M ² eB. 269.32 / M ² B. 2869120					
⑤ PIV POC MIST in 1st 100m bed					
⑧ 7 side T & B P. 384-⑤ 4					
9.59 M ² eB. 5551.22 / M ² B. 5323600					
⑥ PIV B/W embankment (114) in 1st 100m bed					
⑧ 7 side T & B P. 424-⑥ 5					
93.88 M ² eB. 5795.42 / M ² B. 54395800					
⑦ PIV NB type 4 P. 20-⑦ 2					
⑧ 7 side T & B P. 424-⑦ 6					
(1100mm) 22.57.415 M ² eB. 3570.07 / M ² B. 5355120					
(1100mm) 7.57 M ² eB. 358001 / M ² B. 1935000					
⑧ PIV 2nd class bed 3 do-⑧ 2					
⑧ 7 side T & B P. 424-⑧ 7					
12.90 M ² eB. 452.20 / M ² B. 584600					

Continuation

98567200

Sch. XLV-Form-No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑨ Excavating for sand work 2030' S					
87' wide 4 B.P. 52' - 8					
78' 1/2' B.P. 74' 16' 1/4' - B.					578422
⑩ P.V. 48' 70' 2' do. do. do. 1					
87' wide 4 B.P. 52' - 9					
870.12' B.P. 2787.06' 1/4' - B.					242507720
⑪ P.V. 48' 70' 2' do. do. do. 2					
87' wide 4 B.P. 52' - 10					
135' 1/2' B.P. 3528.56' 1/4' - B.					47635620
					389288920
Motion - 18' 1/2' B.P.					46714720

EW - 1688' 8' 1/2'			17. L.C.		3892920
Stone 4' 1/4' - 905' 1/2'			S.F.	-	7845720
Sand - 358' 1/2'					
Stone 3' 3/4' - 33' 1/2'				B.	44774220
Brick - 47000 Nos.			188' 1/4' A.S.P. 1/4' 1/2'		44774220
				B.	402968020

S.F.					
EW - 1688' 8' 1/2' 238 - 4017' 1/2'					
Gravel 870.12' 24' 46.27' - 40260' 1/2'					
W.B. 4' 1/2' - 135' 1/2' 63.74' - 862520					
P.C. 15' - 9.59' 24.46.54' - 446' 1/2'					
B.P. 15' (114) - 93.86' 26.58' - 24948' 1/2'					
Brick, bed 12.95' 214.02' - 181' 1/2'					
					7845720

Continuation